



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1937 (श०)

(सं० पटना 1319) पटना, वृहस्पतिवार, 17 दिसम्बर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2015

सं० ३ / एच०-०१ / २०१५-सा०-१७३७८—बिहार—राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष, 2016 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में संलग्न अनुसूची-१ में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर सामान्य अवकाश रहेगा।

2. अनुसूची-१ में उल्लिखित सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष 2016 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न अनुसूची-२ में उल्लिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपभोग कर सकेंगे।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-२०-२५/२६/पर्व-१, दिनांक ०८ जून १९५७ के साथ पठित निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स ऐक्ट, १८८१ की धारा - २५ के स्पष्टीकरण के अंतर्गत, उक्त स्पष्टीकरण में सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित रविवारों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूची-३ एवं अनुसूची-४ में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर वर्ष 2016 में बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश/बैंक खाता वार्षिक बंदी अवकाश रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण प्रकाश,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## अनुसूची-1

बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए वर्ष 2016 में  
कार्यपालक आदेश के तहत घोषित सामान्य अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेन्डर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	1 दिन	16 जनवरी, 2016	पौष सुदी सप्तमी	शनिवार
2.	वसंत पंचमी	1 दिन	12 फरवरी, 2016	माघ शुक्ल पंचमी	शुक्रवार
3.	महाशिवरात्रि	1 दिन	7 मार्च, 2016	फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी	सोमवार
4.	सप्राट अशोक अष्टमी	1 दिन	14. अप्रील, 2016	चैत्र शुक्ल अष्टमी	गुरुवार
5.	महावीर जयंती	1 दिन	20 अप्रील, 2016	चैत्र शुक्ल त्रयोदशी	बुधवार
6.	वीर कुंवर सिंह जयंती	1 दिन	23 अप्रील, 2016	-----	शनिवार
7.	जानकी नवमी	1 दिन	15 मई, 2016	वैशाख शुक्ल नवमी	रविवार
8.	कबीर जयंती	1 दिन	21 मई, 2016	ज्येष्ठ पूर्णिमा	शनिवार
9.	बुद्ध पूर्णिमा	1 दिन	23 मई, 2016	वैशाख शुक्ल पूर्णिमा	सोमवार
10.	शब-ए-बरात	1 दिन	20 जून, 2016	15 शाबान	सोमवार
11.	दुर्गा पूजा (सप्तमी)	1 दिन	08 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल सप्तमी	शनिवार
12.	दुर्गा पूजा (महाअष्टमी)	1 दिन	09 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल अष्टमी	रविवार
13.	चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज	1 दिन	01 नवम्बर, 2016	कार्तिक शुक्ल द्वितीया	मंगलवार
14.	चैहल्लुम	1 दिन	24 नवम्बर, 2016	20 सफर	गुरुवार
15.	हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस	1 दिन	13 दिसम्बर, 2016	12 रबीउल औव्वल	मंगलवार

- टिप्पणी I— (1) चॉद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।  
(2) राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।  
(3) क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में 6 (छह) दिवसीय कार्य सप्ताह वाली पूर्व की प्रणाली लागू रहेगी।

## अनुसूची-2

वर्ष 2016 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की सूची।  
(पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है।)

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेन्डर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	नव वर्ष	1 दिन	1 जनवरी, 2016	-----	शुक्रवार
2.	मकर संक्रांति	1 दिन	15 जनवरी, 2016	माघ कृष्ण दशमी	शुक्रवार
3.	कर्पूरी ठाकुर जयंती	1 दिन	24 जनवरी, 2016		रविवार
4.	संत रविदास जयंती	1 दिन	22 फरवरी, 2016	माघ शुक्ल पूर्णिमा	सोमवार
5.	होली	1 दिन	22 मार्च, 2016	फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी	मंगलवार
6.	अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती	1 दिन	18 जून, 2016		शनिवार
7.	रमजान का अंतिम जुमा	1 दिन	01 जुलाई, 2016	25 रमजान	शुक्रवार
8.	ईद-उल-फितर (ईद)	1 दिन	07 जुलाई, 2016	02 शौब्वाल	गुरुवार
9.	अंतिम श्रावणी सोमवार	1 दिन	15 अगस्त, 2016	श्रावण शुक्ल त्रयोदशी	सोमवार
10.	रक्षा बंधन	1 दिन	18 अगस्त, 2016	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा	गुरुवार
11.	ईद-उज-ज़ोहा (बकरीद)	1 दिन	13 सितम्बर, 2016	11 ज़िलहिज्जा	मंगलवार
12.	अनन्त चतुर्दशी	1 दिन	15 सितम्बर, 2016	भाद्र शुक्ल चतुर्दशी	गुरुवार
13.	विश्वकर्मा पूजा	1 दिन	17 सितम्बर, 2016	---	शनिवार
14.	दुर्गा पूजा कलश-स्थापन	1 दिन	1 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल प्रतिपदा	शनिवार
15.	जय प्रकाश नारायण जयंती	1 दिन	11 अक्टूबर, 2016		मंगलवार
16.	दुर्गा पूजा	1 दिन	12 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल एकादशी	बुधवार
17.	मुहर्रम	1 दिन	13 अक्टूबर, 2016	11 मुहर्रम	गुरुवार
18.	श्री कृष्ण जयंती	1 दिन	21 अक्टूबर, 2016		शुक्रवार
19.	छठ पूजा (खरना)	1 दिन	05 नवम्बर, 2016	कार्तिक शुक्ल पंचमी	शनिवार
20.	गुरु नानक जयंती	1 दिन	14 नवम्बर, 2016	कार्तिक पूर्णिमा	सोमवार
21.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जयंती	1 दिन	03 दिसम्बर, 2016	-----	शनिवार
22.	क्रिसमस ईव	1 दिन	24 दिसम्बर, 2016	-----	शनिवार

- टिप्पणी— (1) चॉद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।  
(2) उपरलिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन सामान्यतः आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी।

## अनुसूची-3

वर्ष 2016 के लिए बिहार राज्य में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी, 2016	-----	मंगलवार
2.	होली	1	23 मार्च, 2016	फाल्गुन पूर्णिमा	बुधवार
		1	24 मार्च, 2016	चैत्र प्रतिपदा	गुरुवार
3.	बिहार दिवस	1	22 मार्च, 2016	-----	मंगलवार
4.	गुड फ्राइडे	1	25 मार्च, 2016	-----	शुक्रवार
5.	राम नवमी	1	15 अप्रैल, 2016	चैत्र शुक्ल नवमी	शुक्रवार
6.	भीम राव अम्बेदकर जयंती	1	14 अप्रैल, 2016	-----	गुरुवार
7.	मई दिवस (श्रम दिवस)	1	1 मई, 2016	-----	रविवार
8.	ईद-उल-फितर (ईद)	1	6 जुलाई, 2016	01 शौब्वाल	बुधवार
9.	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त, 2016	-----	सेमवार
10.	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	1	25 अगस्त, 2016	भाद्र कृष्ण अष्टमी	गुरुवार
11.	ईद-उज-ज़ोहा (बकरीद)	1	12 सितम्बर, 2016	10 ज़िलहिज्जा	सोमवार
12.	महात्मा गांधी जयंती	1	02 अक्टूबर, 2016	-	रविवार
13.	दुर्गा पूजा (महानवमी)	1	10 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल नवमी	सोमवार
14.	दुर्गा पूजा (विजयादशमी)	1	11 अक्टूबर, 2016	आश्विन शुक्ल दशमी	मंगलवार
15.	मुहर्रम	1	12 अक्टूबर, 2016	10 मुहर्रम	बुधवार
16.	दीपावली	1	30 अक्टूबर, 2016	कार्तिक कृष्ण अमावश्या	रविवार
17.	छठ पूजा	1	06 नवम्बर, 2016	कार्तिक शुक्ल षष्ठी	रविवार
18.	छठ पूजा	1	07 नवम्बर, 2016	कार्तिक शुक्ल सप्तमी	सोमवार
19.	क्रिसमस डे	1	25 दिसम्बर, 2016	-----	रविवार

टिप्पणी— (1) चॉद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।

(2) एन0आई0ऐक्ट के तहत उक्त घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वतः लागू होंगे।

## अनुसूची-4

वर्ष 2016 में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत बैंक खाता बन्दी अवकाश।

क्रमांक	पर्व / अवसर / अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेन्डर के अनुसार तिथि	शाके तिथि / हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	बैंक खाता की वार्षिक बंदी	1 दिन	1 अप्रैल	-----	शुक्रवार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1319-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>